

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1983

सा. का. नि. 285(अ) :—नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक से विचार विपरीत करने के पश्चात् नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक को एतद्वारा संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम के सभी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि क खातों को रखने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है।

1526 GI/82

(1)

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निवर्त कच्चा प्रक्रिय वाले चीनी कारखाने की स्वामी द्वारा या अधिकारियों द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी अन्य केंद्र पर 30 सितम्बर, 1983 को, समाप्त होने वाले ईश्वर वर्ष 1982-83 के लिए परिवर्त ईश्वर के लिए संदेय होगी किन्तु ऐसा उक्त अधिनियम के खण्ड 3 के अधीन उचित के लिए संदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने का दायों में प्रति निबंटम न्यूनतम मूल्य
1	2	3
1.	सिद्धेश्वर खंड उद्योग सहकारी मंडली० लि०, मखानिया तालुक-तलाजा, जिला भावनगर (गुजरात)	13.00

[सं० 3-3/82-एसपीवाई (डी-II)]

एम०आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव
(चीनी)MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1983

G.S.R.286(E)/Essc. om./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factor mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 percent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum panprocess sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or the agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1982-83, ending the 30th September, 1983, subject to the rebates, payable, therefor under clause 3A of the said order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Siddheshwar Khan Udyog Sahakari Mandli Ltd., Makhanla Taluka-Talaja, District Bhavnagar, (Gujarat).	13.00

[No.3-3/82-SPY(D-1f)]

N.R. BANERJI, Joint Secy
(Sugar)